

रिलायंस की दमदार तिमाही

मगर कंपनी के खुदरा क्षेत्र की वृद्धि बाजार के अनुमानों से कम रही

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 19 जुलाई

भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने जून तिमाही में परिचालन के मोर्चे पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। ऑयल-टु-केमिकल्स (ओ2सी) कारोबार में तिमाही सुधार और दूरसंचार क्षेत्र में जबरदस्त बढ़त से कंपनी का संयुक्त परिचालन लाभ सालाना आधार पर 10.7 फीसदी बढ़ा। इसमें तिमाही आधार पर 7.6 फीसदी का सुधार हुआ।

ओ2सी कारोबार की वजह से राजस्व में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जहां बिक्री में 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। जियो और खुदरा कारोबार में 12-12 फीसदी का इजाफा हुआ। मार्च तिमाही के उलट, जब एनजी वटिकल की वजह से संयुक्त शुद्ध लाभ अनुमान से कम रहा था, जून तिमाही में शुद्ध लाभ उम्मीद से बेहतर रहा। जियो-बीपी के नुकसान के कारण कम अलपमत हित और ज्यादा परिचालन लाभ की वजह से कंपनी को मिले समायोजित लाभ में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

मोतीलाल ओसवाल रिसर्च ने आरआईएल के लिए वित्त वर्ष 27 के शुद्ध लाभ का अनुमान 7 फीसदी बढ़ा दिया है। इसकी वजह अन्य आय में बढ़ोतरी और कम अल्पमत हित है। वित्त वर्ष 27-28 के परिचालन लाभ के अनुमानों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि ओ2सी से होने वाले ज्यादा फायदे जियो-बीपी के नुकसान की भरपाई कर देते हैं। आदित्य बंसल की अगुआई में विश्लेषकों ने अपनी खरीद रेटिंग दोहराई है और लक्षित कीमत संशोधित करके 1,550 रुपये (पहले 1,690 रुपये) कर दी है। इसके लिए उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म में आरआईएल की 66.4 फीसदी हिस्सेदारी पर 25 फीसदी का होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लागू किया है।

हालांकि जून तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। लेकिन इस शेयर के लिए मुख्य बातें जियो प्लेटफॉर्म की सूचीबद्धता में प्रगति और इसके नए एनजी और उपभोक्ता कारोबार का कामकाज हैं। पिछले साल निफ्टी-50 के मुकाबले खराब प्रदर्शन करने वाला यह शेयर मौजूदा कीमत पर वित्त वर्ष 28 की अपनी अनुमानित आय के 20 गुना से थोड़े कम पर कारोबार कर रहा है।

जून तिमाही में ओ2सी सेगमेंट का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। सिस्टमैटिक्स रिसर्च के सुदीप आनंद की अगुआई में विश्लेषकों ने कहा कि इस सेगमेंट ने पिछले चार सालों में अपना



विभिन्न सेगमेंट का मूल्यांकन

सेगमेंट	रुपये प्रति शेयर
एनर्जी	589.0
एकीकृत ओ2सी ऍड अपस्ट्रीम	415.0
न्यू एनर्जी	174.0
डिजिटल सर्विसेज	470.0
जेपीएल	944.0
माइनोंरिटी इंटरेस्ट	317.0
संगठित खुदरा	542.0
आआरवीएल	650.0
माइनोंरिटी इंटरेस्ट	107.0
आरसीपीएल (एफएमसीजी)	39.0
जियोस्टार	26.0
कुल एंटरप्राइज वैल्यू	1,666

स्रोत : मोतीलाल ओसवाल रिसर्च

सबसे बेहतर तिमाही प्रदर्शन किया है। इसे बहुत मजबूत प्यूल क्रेक, डाउनस्ट्रीम के अच्छे मार्जिन और कूड सोर्सिंग को बेहतर बनाने से फायदा मिला। ब्रोकरेज ने आरआईएल के लिए लंबे समय के नजरिये से सकारात्मक राय बनाए रखी है। इसकी वजह कंपनी का विविध कारोबारी मॉडल, वैल्यू बढ़ाने वाले कई कारण और कंज्यूमर व एनर्जी कारोबार में मजबूत कामकाज है। ब्रोकरेज ने इसे खरीद की रेटिंग दी है और लक्षित कीमत 1,700 रुपये तय की है।

हालांकि, ओ2सी राजस्व में बढ़ोतरी से मार्जिन या कमाई में कोई खास बढ़त नहीं हुई। इस सेगमेंट के प्रदर्शन पर कई चीजों का बुरा असर पड़ा, जैसे घरेलू प्यूल रिटेलिंग में लागत की पूरी वसूली न हो पाना, अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क से जुड़ी लागत, कच्चे तेल के लिए ज्यादा प्रीमियम, दुलाई और बीमा खर्च, वॉल्यूम में 10 फीसदी की गिरावट और एलपीजी का डाइवर्जन। सेगमेंट का मार्जिन सालाना आधार पर 9.4 फीसदी से 100 आधार अंक गिरकर 8.4 फीसदी रह गया।

दूरसंचार कारोबार का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा। उसके एकल राजस्व में सालाना आधार पर 10.8 फीसदी और पिछली तिमाही के मुकाबले 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह वृद्धि नए ग्राहकों के जुड़ने से हुई। हालांकि प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) में थोड़ी सुस्ती रही। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के दौरान जियो ने 89 लाख नए ग्राहक जोड़े। इससे उसके ग्राहकों की कुल संख्या 53.33 करोड़ हो गई जो सालाना

आधार पर 7.1 फीसदी ज्यादा है। दौलत कैपिटल के अनुसार यह लगातार आठवीं तिमाही है, जब ग्राहकों की संख्या में विस्तार हुआ है। एआरपीयू सालाना आधार पर 3.3 फीसदी बढ़कर 215.6 रुपये हो गया। हालांकि ब्रोकरेज ने इस बढ़ोतरी को मामूली बताया।

हालांकि जियो की 4जी व 5जी मजबूत स्थिति, ग्राहकों की अच्छी संख्या, बेहतर एआरपीयू और नियोजित तरीके से टैरिफ दरों में वृद्धि सकारात्मक बातें हैं, फिर भी दौलत कैपिटल के हिमांशु शाह और मोहित रजनी ने वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के प्रदर्शन को देखते हुए वित्त वर्ष 27 और वित्त वर्ष 28 के परिचालन लाभ के अनुमानों को 3-4 फीसदी घटा दिया है। टैरिफ में इजाफे के अलावा, दूरसंचार कारोबार के लिए मुख्य वजहों में 5जी ग्राहकों से ज्यादा कमाई, कम पूंजीगत खर्च, मजबूत कर मुक्त नकदी और सार्वजनिक सूचीबद्धता शामिल हैं।

खुदरा कारोबार में उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन परिचालन लाभ के मामले में रहा। डिजिटल कॉमर्स में निवेश और कम मार्जिन वाले जियोमार्ट बिजनेस की ज्यादा हिस्सेदारी के कारण यह सालाना आधार पर 2 फीसदी गिर गया। मार्जिन 75 आधार अंक घटकर 7.4 फीसदी रह गया। इक्विक्स सिस्कोरिटीज ने कहा कि खुदरा कारोबार एक कमजोर कड़ी बना रहा, क्योंकि डिजिटल कॉमर्स को बढ़ाने के लिए किए गए निवेश के कारण मार्जिन गिरकर 15 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गया।

इक्विटी फंडों में सकल निवेश 4 ट्रिलियन रुपये

पहली छमाही में एनएफओ में सुस्ती के बावजूद ऐसा हुआ। निवेशकों ने बाजार में गिरावट जारी रहने से जांची-परखी योजनाओं का विकल्प चुना

अभिषेक कुमार
मुंबई, 19 जुलाई

साल 2026 की पहली छमाही में ऐक्टिव इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं में सकल निवेश ज्यादा बना रहा। लेकिन नए फंड ऑफर (एनएफओ) से मिलने वाली रकम छह साल के निचले स्तर पर आ गई। 4.07 लाख करोड़ रुपये का कुल निवेश 2024 की दूसरी छमाही में आए रिकॉर्ड 4.34 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े के बहुत करीब था। यह दूसरी ऐसी छमाही रही जब निवेश का आंकड़ा 4 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में लगातार बढ़ते निवेश और मौजूदा योजनाओं में भारी एकमुश्त निवेश की वजह से यह मजबूती आई। उसने एनएफओ संग्रह में आई भारी गिरावट की भरपाई से भी कहीं ज्यादा असर दिखाया। एनएफओ संग्रह 2025 की दूसरी छमाही में 22,026 करोड़ रुपये और 2024 की दूसरी छमाही में 53,000 करोड़ रुपये से

ज्यादा था, जो 2026 की पहली छमाही में गिरकर 7,092 करोड़ रुपये रह गया।



इसके उलट, डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सीकेप, मल्टीकेप और यहां तक कि मिडकैप फंडों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। बाजार में कोई खास हलचल न होने के बावजूद इनमें से कई फंडों ने पिछले दो सालों में अच्छा सकारात्मक रिटर्न दिया है। 2026 की पहली छमाही में फ्लेक्सीकेप, स्मॉलकैप और मिडकैप फंडों में सबसे ज्यादा शुद्ध निवेश आया। इन तीनों श्रेणियों ने मिलकर पहली छमाही के कुल 1.8 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश का करीब 60 फीसदी हिस्सा हासिल किया। मौजूदा योजनाओं में एकमुश्त निवेश में हुई जबरदस्त

बढ़ोतरी इक्विटी निवेश की आवक में मजबूती की एक बड़ी वजह रही है।

अलग-अलग तरीकों जैसे एसआईपी, एकमुश्त निवेश और एनएफओ से इक्विटी में आने वाले सकल निवेश के विश्लेषण से पता चलता है कि 2026 की पहली छमाही में अनुमानित एकमुश्त निवेश बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह किसी भी छमाही अवधि के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 2024 की दूसरी छमाही में यह निवेश 2.6 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था।

एकमुश्त निवेश का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि इस अवधि के दौरान उद्योग के कुल एसआईपी योगदान में ऐक्टिव इक्विटी योजनाओं का हिस्सा 80 फीसदी था। 2026 की पहली छमाही में शुद्ध इक्विटी निवेश लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछली छह महीने की अवधि की तुलना में 5 फीसदी कम है।

पूर्णकालिक सदस्य की तलाश में है

आईएफएससीए

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने गिफ्ट सिटी में एकीकृत वित्तीय नियामक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के लिए एक पूर्णकालिक सदस्य की तलाश शुरू कर दी है।

वर्तमान में आईएफएससीए में एक अध्यक्ष हैं। उनके बाद विभिन्न खंडों जैसे पूंजी बाजार, क्मोडिटीज, मार्केट इंटरमीडियरीज और सुपरविजन आदि के प्रमुख हैं जो कई कार्यकारी निदेशक (ईडी) हैं। लेकिन पूर्णकालिक सदस्य के पद पर कोई नहीं है। डीईए ने अब 14 अगस्त तक अधिकतम 58 वर्ष की आयु वाले अनुभवी विशेषज्ञों से तीन साल के कार्यकाल के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पूर्णकालिक सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, लेकिन 62 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के साथ। इसकी तुलना में, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) में वर्तमान में चार पूर्णकालिक सदस्य हैं।

बीएस



बाजार हलचल

मॉनसून सत्र में एसएमसी

विधेयक पर नजर

संसद का मॉनसून सत्र इस सप्ताह शुरू हो रहा है और शेयर बाजार प्रस्तावित सिस्कोरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी) विधेयक के कारण इस पर नजर रखे हुए है। सरकार यह बिल इस सत्र में पेश कर सकती है। मसौदा विधेयक को वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा

गया था। इस पर उद्योग नजर मार चुका है और इस पर परामर्श भी हो चुका है। अब सभी की निगाहें अंतिम संहिता पर हैं क्योंकि इसमें पूंजी बाजारों को संचालित करने वाले कई कानूनों को एकीकृत और आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। लिहाजा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की निगरानी भी बदल जाएगी। पिछले सप्ताह तक इस पर परामर्श चल रहे थे। समिति ने अंतिम मसौदा रिपोर्ट तैयार करने से पहले कई प्रावधानों पर स्पष्टीकरण के लिए आर्थिक मामलों के सचिव को बुलाया था।

फंड मैनेजर इफेक्ट?

लैंडमार्क कार्स और मिसेज बेक्टर्स फूड

स्पेशलिटीज के शेयर हाल के सत्रों में तेजी पर हैं। कई प्रतिष्ठित निवेशकों के दिलचस्पी दिखाने के बाद इन शेयरों में बड़ी तेजी आई है। अनुभवी बाजार पंडितों समीर अरोड़ा और सुनील सिंघानिया से जुड़े फंड हाउसों ने हाल में इन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है। अरोड़ा-समर्थित हेलियोस म्युचुअल फंड ने लैंडमार्क कार्स के शेयर खरीदे, जबकि सिंघानिया के अवैकस ऐसेट मैनेजर ने मिसेज बेक्टर्स में हिस्सेदारी हासिल की। इन कदमों ने बाजार का ध्यान आकर्षित किया है। इससे यह पता चलता है कि कैसे जाने-माने स्टॉक निवेशकों के निवेश अक्सर दूसरे निवेशकों के लिए भी भरोसा पैदा कर सकते हैं, खासकर अपेक्षाकृत कम स्वामित्व वाले मिडकैप शेयरों में।

संकलन : खुशबू तिवारी और सुंदर सेतुरामन

 JKcement A SOLID LEGACY OF TRUST J.K. Cement Ltd. (CIN: L17229UP1994PLC017199) Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh, India Telephone : +91-512-2371478/81, Fax : +91-512-2399854 Email : comp.sec@jkcement.com Web : www.jkcement.com Great Place To Work. Certified YES 2024 - YES 2027 INDIA											
EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE , 2026											
(₹ in Crores)											
Sl. No.	Particulars	CONSOLIDATED									
		Three Months Ended 30.06.2026 (Unaudited)	Three Months Ended 31.03.2026 (Audited)	Three Months Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)						
1.	Total Income from Operations	4,070.97	3,928.79	3,408.97	13,916.84						
2.	Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax	648.56	681.93	698.56	2,387.81						
3.	Net Profit for the Period before share (Loss) in associates and tax (before Exceptional and Extraordinary items)	406.15	443.59	489.14	1,491.54						
4.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	406.15	443.54	489.15	1,443.85						
5.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	274.62	330.88	324.25	987.99						
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	274.61	371.66	322.22	1,062.76						
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	77.27	77.27	77.27	77.27						
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	6,530.85	6,256.24	5,631.48	6,256.24						
9.	Security Premium Account	756.80	756.80	756.80	756.80						
10.	Net Worth	7,364.92	7,090.31	6,465.55	7,090.31						
11.	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	5,399.21	4,990.20	5,056.84	4,990.20						
12.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA						
13.	Debt Equity Ratio	0.90	0.86	0.95	0.86						
14.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualized except Period / Year ended)	35.91	43.08	41.99	128.44						
15.	Debenture Redemption Reserve	-	-	3.75	-						
16.	Debt Service Coverage Ratio	2.35	2.92	2.37	2.39						
17.	Interest Service Coverage Ratio	6.08	7.48	6.95	6.12						
Notes:											
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarter ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:- www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.jkcement.com.											
2. Key Standalone Financial Information:											
Sl. No.	Particulars	STANDALONE									
		Three Months Ended 30.06.2026 (Unaudited)	Three Months Ended 31.03.2026 (Audited)	Three Months Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)						
1.	Total Income from Operations	3,906.19	3,726.56	3,245.78	13,138.74						
2.	Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax	639.67	670.47	684.04	2,331.05						
3.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	423.13	459.67	497.87	1,539.74						
4.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	423.13	459.67	497.87	1,493.74						
5.	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	291.00	344.54	332.48	1,033.34						
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	290.88	346.58	331.63	1,032.87						
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	77.27	77.27	77.27	77.27						
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	6,417.49	6,126.61	5,543.20	6,126.61						
9.	Security Premium Account	756.80	756.80	756.80	756.80						
10.	Net Worth	7,251.56	6,960.68	6,377.27	6,960.68						
11.	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	5,399.21	4,990.20	5,056.84	4,990.20						
12.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA						
13.	Debt Equity Ratio	0.91	0.87	0.96	0.87						
14.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualized except Period / Year ended)	37.66	44.59	43.03	133.73						
15.	Debenture Redemption Reserve	-	-	3.75	-						
16.	Debt Service Coverage Ratio	2.33	2.87	2.32	2.31						
17.	Interest Service Coverage Ratio	6.09	7.47	6.95	6.10						
3. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries together referred as the “Group” have been prepared in accordance with Ind AS 110 – Consolidated financial statements.											
Place : Gurugram Date : 18 July, 2026		For and on behalf of the Board of Directors									
		Scan the QR Code to download the full financial results									
		Dr. Raghavpat Singhania Managing Director DIN: 02426556									
 JKsuper CEMENT BUILD STRONG  JKsuper (STRONG) CONCRETE REPAIRS BUILD STRONG  JKsuper (PROTECT) BUILD STRONG BUILD STRONG  JKMaxx PAINTS — canopy —  JKcement WallMaxX White Cement Based Putty  JKcement WallMaxX ADVANCED Premium Wall Putty  JKcement ShieldMaxX Universal Waterproof Putty  JK CEMENT WhiteMaxX White Portland Cement  JKTYLO PREMIUM ADHESIVES & GROUTS  JKPROFIX TRUSTED BY EXPERTS <tr><td colspan="6">For Kind Attention of Shareholders : As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report, etc. on email.</td></tr>						For Kind Attention of Shareholders : As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report, etc. on email.					
For Kind Attention of Shareholders : As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report, etc. on email.											